

## दुकान पर मिले नकली धनिया के पैकेट, कार्रवाई को लेकर शुरू हुई राजनीति

Publish Date: | Tue, 19 Jan 2021 06:53 PM (IST)



आलमपुर(नईदुनिया न्यूज)।आलमपुर नगर में मंगलवार की सुबह एसबीआइ शाखा के पास स्थित एक किराने की दुकान से दतिया से आलमपुर पहुंची गोविंद फूड प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने अपने ही ब्रांड के नकली धनिया मसाले के पैकेट बेचते हुए दुकानदार को पकड़ लिया। इसके बाद टीम के सदस्यों ने दुकान से 30 नकली धनिया पाउडर के जब्त किए। जिसके बाद टीम के सदस्य

आलमपुर(नईदुनिया न्यूज)।आलमपुर नगर में मंगलवार की सुबह एसबीआइ शाखा के पास स्थित एक किराने की दुकान से दतिया से आलमपुर पहुंची गोविंद फूड प्राइवेट लिमिटेड की टीम ने अपने ही ब्रांड के नकली धनिया मसाले के पैकेट बेचते हुए दुकानदार को पकड़ लिया। इसके बाद टीम के सदस्यों ने दुकान से 30 नकली धनिया पाउडर के जब्त किए। जिसके बाद टीम के सदस्य दुकानदार पर कार्रवाई कराने को लेकर थाने पहुंच गए। जिसके बाद नगर में इस मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई।

बता दें कि मंगलवार की सुबह 11 बजे दतिया से गोविंद फूड प्राइवेट लिमिटेड की टीम आलमपुर में एसबीआइ बैंक की शाखा के पास स्थित बंटी गुप्ता के किराने की दुकान पर पहुंची। टीम के सदस्यों ने दुकानदार ने अपने ही ब्रांड के धनिया पाउडर के पैकेट दुकानदार से मांगे। इसके बाद दुकानदार ने उन्हें धनिया पाउडर का पैकेट दे दिए। जब इन पैकेट की टीम के सदस्यों ने जांच की तो वह नकली निकले। इसके बाद टीम के सदस्यों ने दुकान से 30 धनिया पाउडर के पैकेट जब्त किए। वहीं टीम के सदस्य पुष्पेंद्र मिश्रा, कासिम खान और राहुल मिश्रा दुकानदार पर कार्रवाई कराने को लेकर उसे सुबह ही थाने लेकर पहुंच गए। लेकिन इसके बाद दुकानदार पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर नगर में राजनीति गरमा गई। एक बड़ी पार्टी के क्षेत्रीय सदस्य दुकानदार को कार्रवाई से बचाने के लिए उसके समर्थन में उतर आए। इस वजह से सुबह से लेकर देर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी।

-मिलावटी सामान बेचने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस संबंध में प्रशासन से मैं बात करता हूं।

नाथु सिंह गुरजर, जिलाध्यक्ष भाजपा।

-भाजपा का शुद्ध से युद्ध अभियान से कोई लेना देना नहीं है। इस संबंध कलेक्टर और एसपी से मैं बात करता हूं।

Source: <https://www.naidunia.com/madhya-pradesh/bhind-bhind-news-6658504>